

भारतीय जनता पार्टी – इतिहास एवं अध्यक्ष

[S samanyagyan.com/hindi/gk-president-of-bhartiya-janta-party](http://samanyagyan.com/hindi/gk-president-of-bhartiya-janta-party)

भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं उनके अध्यक्ष: (List of President of Bhartiya Janta Party in Hindi)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा):

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल के वर्तमान अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस दल का युवा संगठन है। इस पार्टी ने अपनी शुरुआत हिन्दू एजेण्डे के साथ की थी। पार्टी का गठन पुर्नगठित जनसंघ के रूप में 6 अप्रैल, 1980 को सम्पन्न हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था। इस दल में अधिकांश सदस्य भूतपूर्व जनसंघ के शामिल हुए, जिसका 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया था। इसके साथ ही कुछ गैर जनसंघी भी इसमें शामिल हुए। इस दल के गठन के बाद जो चुनाव हुये, उसमें इस दल को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली और 1984 के लोकसभा के आम चुनाव में इस दल के दो सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित किये गये। 1989 में चुनाव तथा 1991 के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में इस दल को पर्याप्त सफलता मिली।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का इतिहास:

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। इससे पहले 1977 से 1979 तक इसे 'जनता पार्टी' के साथ के 'भारतीय जनसंघ' और उससे पहले 1951 से 1977 तक 'भारतीय जनसंघ' के नाम से जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है-

- भारतीय जनसंघ
- जनता पार्टी
- भारतीय जनता पार्टी

भारतीय जनसंघ:

'भारतीय जनसंघ' की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। पार्टी को पहले आम चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन इसे अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाबी ज़रूर प्राप्त हो गई थी। भारतीय जनसंघ ने शुरू से ही कश्मीर की एकता, गैर-रक्षा, ज़मींदारी प्रथा और परमिट-लाइसेंस-कोटा राज आदि समाप्त करने जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ज़ोर दिया था।

जनता पार्टी:

1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री और लालकृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। लेकिन ये सरकार अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी, क्योंकि आपसी गुटबाज़ी और लड़ाई की वजह से सरकार तीस माह में ही गिर गई।

भारतीय जनता पार्टी:

1980 के चुनावों में विभाजित जनता पार्टी की हार हुई। भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी से पृथक हो गया और अब उसने अपना नया नाम 'भारतीय जनता पार्टी' रख लिया। इस समय पार्टी संसद के दौर से गुजर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। दिसंबर, 1980 में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ। भाजपा ने कांग्रेस के साथ अपने विरोध को जारी रखा और पंजाब और श्रीलंका को लेकर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार की आलोचना की।

इन्हें भी पढ़ें: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास एवं उनके अध्यक्षों की सूची

2014 तक भारतीय जनता पार्टी भारतीय संसद में सदस्यों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है जबकि विभिन्न राज्य विधान सभाओं में यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। मार्च 2015 में यह विश्व की सर्वाधिक सदस्य-संख्या वाली पार्टी बन गयी। इसका वैचारिक और सांगठनिक ढाँचा हिन्दू राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है।

आइये जानते हैं स्थापना के बाद से अब तक कौन-कौन बना है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष:-

अध्यक्ष का नाम	कार्यकाल
अटल बिहारी वाजपेयी	1980 से 1986
लालकृष्ण आडवाणी	1986 से 1991
मुरली मनोहर जोशी	1991 से 1993
लालकृष्ण आडवाणी	1993 से 1998
कुशाभाऊ ठाकरे	1998 से 2000
बंगारू लक्ष्मण	2000 से 2001
जेना कृष्णमूर्ति	2001 से 2002
वेंकैया नायडु	2002 से 2004
लालकृष्ण आडवाणी	2004 से 2006
राजनाथ सिंह	2006 से 2009
नितिन गडकरी	2009 से 2013
राजनाथ सिंह	2013 से 2014
अमित शाह	2014 से अब तक

नीचे दिए गए प्रश्न और उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं। यह भाग हमें सुझाव देता है कि सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्नोत्तरी एसएससी (SSC), यूपीएससी (UPSC), रेलवे (Railway), बैंकिंग (Banking) तथा

अन्य परीक्षाओं में भी लाभदायक है।

महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर (FAQs):

प्रश्न: नजमा हेपतुल्ला कब लोकसभा चुनाव में वे भाजपा से जुड़ गई थी?

उत्तर: 2004

प्रश्न: जुलाई 2004 में दोबारा राज्यसभा के लिए भाजपा की टिकट पर कौन चुना गया था?

उत्तर: नजमा हेपतुल्ला

प्रश्न: लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे?

उत्तर: गदर पार्टी *(Exam - SSC CML May, 2001)*

प्रश्न: किस दल ने दो वर्ष के समय में दो प्रधानमंत्री दिए?

उत्तर: जनता पार्टी *(Exam - SSC CPO Nov, 2008)*

प्रश्न: किस भारतीय राजनीतिक दल की स्थापना ताशकंद में हुई थी?

उत्तर: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी *(Exam - SSC TA Dec, 2008)*

प्रश्न: लक्ष्मी सहगल की पुत्री सुभाषिनी अली 1989 में कानपुर से किस पार्टी की संसद रही?

उत्तर: माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी